

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 1969/फाल्गुन 30, 1890
No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 1969/PHALGUNA 30, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 20th March 1969

S.O 1161.—In exercise of the powers conferred by section 280W of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the Annuity Deposit Scheme, 1966, namely:—

In paragraph 4 of the Annuity Deposit Scheme, 1966, in sub-paragraph (2), after the words "the specified date", the words:

"or within such extended time as the Income-tax Officer may, in his discretion, allow in a case where he is satisfied that the depositor was prevented by good and sufficient reasons from making the application on or before the specified date"

shall be, and shall be deemed always to have been, inserted

[No. 21/F. No. 10(14)/68-TPL.]

K S. SUNDARA RAJAN, Addl. Secy.

